

## ल्यूमनिस ने उत्तराखंड में सौर मॉड्यूल सुवधि में नविश किया

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में ल्यूमनिस पावर टेक्नोलॉजीज़ ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में 250 मेगावाट की सौर मॉड्यूल वनिर्माण सुवधि का उदघाटन किया।

- ल्यूमनिस ने कनेक्टेड ऊर्जा समाधानों को एकीकृत करने वाले अपने सौर पारस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने हेतु संयंत्र में एक इमर्सिवि एक्सपीरियंस सेंटर भी लॉन्च किया।

### मुख्य बडि:

- 1.2 अरब रुपए** के शुरुआती नविश से नरिमति पूरी तरह से स्वचालित **10 एकड़ का संयंत्र 1 गीगावॉट क्षमता** तक वसितार योग्य है।
  - यह लॉन्च ल्यूमनिस के लिये केवल सोलर इनवर्टर और बैटरी बनाने वाली कंपनी से अब सोलर मॉड्यूल बनाने की कंपनी में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है।
  - कंपनी यह भी दावा करती है कि वह एकमात्र भारतीय फर्म है जो संपूर्ण सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली डिज़ाइन तथा नरिमाण कर सकती है।
- यह सुवधि **आवासीय, वाणजियिक और कृषि आवश्यकताओं के लिये 5BB (बसबार्स) से 16BB कॉन्फिगिरेसन** तक अनुकूलनशीलता के साथ पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, एन-प्रकार तथा **TOPCon सौर पैनलों** का उत्पादन करेगी।
- कंपनी ने **सौर मॉड्यूल प्रौद्योगिकी विकास के लिये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय** के साथ साझेदारी की है।
- यह लॉन्च सरकार के **'मेक इन इंडिया'** मशिन और हाल ही में घोषित **'पीएम सूर्य घर: मुफ्त वदियुत योजना'** सौर कार्यक्रम के अनुरूप है।
  - मूल रूप से **1 करोड़ घरों में 1-3 किलोवाट (किलोवाट) सौर प्रणालियों की स्थापना पर पूरी तरह से सब्सिडी** देने का इरादा था, यह योजना अब लागत का 60% तक कवरेज प्रदान करती है, परिवारों को शेष राशिको पूरी करने की आवश्यकता होती है, भले ही सुलभ ऋण के साथ।
  - इस योजना में हर महीने **300 यूनिट तक मुफ्त वदियुत** उत्पन्न करने की परकिल्पना की गई है, जिससे परिवारों को सालाना 15,000-18,000 रुपए का लाभ होगा।
- मेरकॉम इंडिया रसिर्च द्वारा हाल ही में जारी "भारत में सोलर पीवी वनिर्माण की स्थिति 2024" रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने कैलेंडर वर्ष 2023 में 20.8 गीगावॉट सौर मॉड्यूल और 3.2 गीगावॉट सौर सेल क्षमता जोड़ी।